



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 26.02.2021

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा चोरी के माल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 17 बण्डल लोहे के सरिया बरामद।

दिनांक 25.2.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी के माल के साथ 01 अभियुक्त दीपक पुत्र मुकेश निवासी ग्राम नया हेवतपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के 6 प्रतिशत प्लाट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 17 बण्डल लोहे के सरिया बरामद किये गये है।

अभियुक्त का विवरण-

दीपक पुत्र मुकेश निवासी ग्राम नया हेवतपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 110/21 धारा 414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

17 बण्डल लोहे के सरिया



2-थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा लूट/चोरी के मोबाइल खरीद बेचने का काम करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 2 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 26.02.2021 को थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा लूट/चोरी के मोबाइल खरीद कर बेचने का काम करने वाले एक अभियुक्त मनोज को सेक्टर 12 के पास से लूट / चोरी के 2 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 25.02.2021 को थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस की गिझोड़ चौराहे से सेक्टर 54/57 चौराहे की ओर जाने वाले रोड पर बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी जिसमें अभियुक्त रिषभ दयाल पैर में गोली लगने से घायल / गिरफ्तार तथा एक अन्य मौके से फरार अभियुक्त छोटू को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से लूटे हुए 3 मोबाइल फोन , एक स्कूटी तथा अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद हुए थे ।

अभियुक्त रिषभ दयाल अभियुक्त मनोज को लूट / चोरी के मोबाइल फ़ोन बेचता था बाद में मनोज इन फोनो को अलग अलग लोगों को बेचने का काम करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनोज कुमार उर्फ रिषभ पुत्र नरेंद्र प्रताप मूल निवासी ग्राम रामपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात हाल पता ग्राम सलारपुर थाना सेक्टर 39 नोएडा

अभियोग का विवरण-

मुकदमा अपराध संख्या 140/2021 धारा 414/411 आईपीसी थाना सेक्टर 24 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

लूट के 2 मोबाइल फोन अलग अलग कंपनी के



3-थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा ITC कम्पनी में डकैती का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड के दौरान 03 अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिये गये, कब्जे से डकैती में लूटी गई टाटा एस गाड़ी, लूटे गए 14 सिगरेट के कार्टन(कीमत 25 लाख रूपये),3 तमंचे मय 03 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

दिनांक 25/26.02.2021 की रात्रि में थाना बीटा 2 क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड के दौरान डाढा गोलचक्कर के पास 03 बदमाश 1. कपिल पुत्र नरेश 2. रोहित पुत्र शीलेन्द्र ठाकुर 3. रोहित पुत्र गंगाराम निवासीगण घोडी बछेडा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। इनके अतिरिक्त 02 बाल अपचारी को बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने संरक्षण में लिया गया है। बदमाशों के कब्जे से दिनांक 24/25.02.2021 की रात्रि में साइट 4 में आईटीसी के गो-डाउन से लूटी गई टाटा एस गाड़ी UP16 AT 7315 , लूटे गए 14 सिगरेट के कार्टन(कीमत 25 लाख रूपये),3 तमंचे मय 03 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण-

1. रोहित पुत्र शिलेन्द्र निवासी घोडी बछेडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (पुलिस मुठभेड में घायल)
2. कपिल कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी घोडी बछेडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (पुलिस मुठभेड में घायल)
3. रोहित पुत्र गंगाराम निवासी घोडी बछेडा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर (पुलिस मुठभेड में घायल)
4. 02 बाल अपचारी

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स0 100/2021 धारा 342/386/395/397/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0- 102/2021 धारा 307 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 103/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0स0 104/2021 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0स0 105/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0स0 106/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. टाटा एस (छोटा हाथी) रजि नं UP16 AT 7315 (लूटा हुआ)
2. 14 कार्टन सिगरेट कीमत लगभग 25 लाख रूपये(लूटी हुई)
3. घटना में प्रयुक्त चाकू
4. 03 तमंचे मय 03 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस



4- थाना कासना पुलिस द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब बनाकर तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर एल्कोहोल व 02 लीटर स्पिरिट बरामद।

दिनांक 25/02/2021 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 08/21 धारा 272 /273 /420 / 407/408/471/120बी भादवि व 60 क आबकारी अधि0 में प्रकाश में आये अभियुक्त नदीम पुत्र जमील अहमद निवासी बास नगली थाना भाओर जिला रामपुर को थाना क्षेत्र के सिरसा गोल चक्कर के पास ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर एल्कोहोल व 02 लीटर स्पिरिट बरामद कि गई है।

पूर्व मे पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिये गये अभियुक्त मिकू उर्फ चन्द्रभान द्वारा पूछताछ के दौरान प्राप्त संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की जांच एंव काल डिटेल से प्रकाश मे आया अभियुक्त नदीम जहरीली एल्कोहाल बनाने वाला एक शातिर किस्म का अपराधी है।

अभियुक्त का विवरण-

नदीम पुत्र जमील अहमद निवासी बास नगली थाना भाओर जिला रामपुर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 67/2020 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 467/468/417/420 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 68/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शहर जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 08/2021 धारा 272/273/420/407/408/471/120बी भादवि व 60 क आबकारी अधि0 थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 20 लीटर एल्कोहोल
2. 02 लीटर स्प्रिट



5- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 05 मोबाइल फोन व 02 लैपटॉप व 01 बैग बरामद।

दिनांक 26/02/2021 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर अरविन्द कुमार उर्फ सोनू पुत्र वीरेन्द पाल सिंह निवासी गली न0 02 गाव सलारपुर नोएडा सेक्टर 39 को थाना क्षेत्र के सलारपुर यूटर्न के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 02 लैपटॉप व 01 पिट्टू बैग बरामद हुये है।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो सोसाइटियों में नशा करके जाता है और मकान व फ्लैटों में घुसकर मोबाइल व लैपटॉप चोरी करता है।

अभियुक्त का विवरण-

अरविन्द कुमार उर्फ सोनू पुत्र वीरेन्द्र पाल सिंह निवासी गली न0 02 गाव सलारपुर नोएडा सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0स0 91/20 धारा 414/411 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0स0 87/21 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर 39 गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0स0 141/21 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 05 मोबाइल फोन
2. 02 लैपटॉप
- 3 01 पिट्टू बैग

